

④ दमण नगरपालिका परिषद / DAMAN MUNICIPAL COUNCIL

नगरपालिका सीमाओं के अंतर्गत वाणिज्यिक हेतु लाइसेंस / लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र।
Application form for the new Licence / Renewal of Licence for Commercial activities
the Municipal limits.

सेवा में,
मुख्य अधिकारी,
दमण नगरपालिका परिषद,
दमण.

विषय :- वाणिज्यिक गतिविधियों शुरु करने हेतु अनुमति / लाइसेंस का नवीकरण।

Sub :- Permission to start commercial activities / renewal of Licence.

महोदय,

मैं / हम वाणिज्यिक गतिविधिया हेतु लाइसेंस जारी करने के लिए / नवीकरण करने के लिए विवरण निचेप्रस्तुत कर रहा हूँ / रहे है।
I / We / Am / Are furnishing below the details for the issue / renewal of Licence for commercial activities.

1. आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में) / Name of applicant :
(Capital Letter)
2. आवासीय पता / Residential address
(1) मकान सं. / House No. :
(2) वार्ड सं. / Ward No. :
(3) गली सं. / Street :
3. वाणिज्यिक गतिविधि का विवरण / Details of description :
of com. Act.
4. पूर्व नगरपालिका लाइसेंस सं. यदि हो / Previous mun. Licence :
No. if any.
5. वाणिज्यिक गतिविधि का स्थान / Place of Com. Act.
(1) मकान सं. / House No. :
(2) वार्ड सं. / Ward No. :
(3) गली सं. / Street :
6. परिसर के मालिक का नाम / Name of owner of premises :
7. यदि आवेदक परिसर का मालिक नहीं है तो मालिक का अनापत्ति प्रमाणपत्र जोडा जाए / If the applicant is not the owner :
of premises the N.O.C of owner is to be attaches.
8. स्वास्थ्य विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र / N.O.C. of health :
Department.
9. तिथि जब से वाणिज्यिक गतिविधियां शुरु की गई/शुरु की जाने की तिथि / The date from which the commercial :
activities started/ to be started.
10. कारखाना / उद्योग के मामले में परियोजना रिपोर्ट / Project :
report in case of factory / Industry.
11. उचित वार्षिक कुल बिक्री / Approximate annual turn over :

मैं / हम ऊपर संदर्भित वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु लाइसेंस जारी करने के लिए शुल्क देने को तैयार हूँ/है, यदि कोई हो।

I / We / Am / Are ready to pay the fees if any for the issue of licence for the above referred commercial activities.

दिनांक / Date :-

भवदीय / Yours Faithfully,

Mobile No. :- _____

संलग्नक / Encl :-

1. मालिक से अनापत्ति प्रमाणपत्र / N.O.C. of the owner
2. स्वास्थ्य विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र / N.O.C of Health Dept.
3. आईडी प्रमाण / ID Proof.